




Conceptualisation, Developed and Design © Katha







## दिशानिर्देश

- ★ प्रारंभ में प्रत्येक खिलाड़ी का स्कोर 5 रहेगा। यह स्कोर 5 लीटर पानी का प्रतीक है।
- ★ प्रत्येक खिलाड़ी बारी-बारी से पासा फेंकेगा और जितना अंक आएगा, उतने ही खाने चलेगा।
- ★ खिलाड़ी जिस स्थान पर पहुँचेगा, वहाँ के अनुदेशों को जोर से पढ़कर सुनाएगा और उनका पालन करेगा।
- ★ यदि वह किसी जल संरक्षण/प्रदूषक.रोधी स्थान पर पहुँचे, तो उसके मौजूदा स्कोर में एक लीटर पानी जोड़ें।
- ★ यदि वह किसी जल अपव्यय/प्रदूषक स्थान पर पहुँचे, तो उसके स्कोर में से एक लीटर पानी कम करें।
- ★ खिलाड़ियों को अपने पत्रकों पर स्कोर दर्ज करना चाहिए।
- ★ जिस टीम या खिलाड़ी का स्कोर सबसे अधिक होगा, वही विजेता होगा।



## पैनल

## अनुदेश

1	दाँत साफ करते, बरतन धोते और कपड़े धोते समय आपने नल को बंद नहीं किया। एक लीटर पानी कम करें।
2	आपने नहाने के लिए शावर का नहीं, बल्कि बाल्टी का उपयोग किया। और एक लीटर पानी जोड़ें।
3	आपने झाड़ू लगाकर नहीं, बल्कि पाइप से तेज धार में निकलते पानी से फाटक के सामने की जगह की सफाई की। एक लीटर पानी कम करें।
4	आपने तड़के सुबह या देर शाम को पौधों में पानी दिया ताकि वाष्पन में कमी आए। एक लीटर पानी जोड़ें।
5	आपने शावर के नीचे बहुत देर तक स्नान किया। एक लीटर पानी कम करें।
6	आपने पाइप से हो रहे रिसाव को ठीक किया। एक लीटर पानी जोड़ें।
7	आप पशुओं को तालाबों और झीलों में नहलाते हैं। एक लीटर पानी कम करें।
8	जिस पानी से आपने सब्जियाँ धोई थीं, उसका उपयोग आपने पौधों को पानी देने के लिए किया। एक लीटर पानी जोड़ें।
9	आप जलाशयों (झील, तालाब और महासागर) में कूड़ा-करकट नहीं डालते। एक लीटर पानी जोड़ें।
10	आपने सरकार को यह याचिका भेजी है कि उद्योगों को अपना अपशिष्ट जलाशयों में डालने से रोका जाए। एक लीटर पानी जोड़ें।

